



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 169 राँची, मंगलवार, 27 फरवरी, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

16 फरवरी 2018

संख्या-03 नि०-60/2014 रा०नि०आ० 221 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्व्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन

आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, 77 एवं 78 सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थानीय नगर निकाय/पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	दुमका	XII दुमका/08 दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख)	अमिता मिश्रा, (अध्यक्ष पद) वार्ड सं0-02,मो0-रसिकपुर, पो0+थाना-दुमका, जिला-दुमका	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XII दुमका/08 दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख)	कंचन गुप्ता, (अध्यक्ष पद) वार्ड सं0-03,मो0-रसिकपुर, पो0+थाना-दुमका, जिला-दुमका	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XII दुमका/08 दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख)-02	अजय कुमार सिंह, रसिकपुर, बड़ा बाँध, दुमका, वार्ड नं0-02	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XII दुमका/08 दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख)-02	मनोज सिंह, दुमका, वार्ड नं0-02	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XII दुमका/08 दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख)-13	अजय कुमार मंडल, बाबुपाड़ा, दुमका, वार्ड नं0-13	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XII दुमका/08 दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख)-14	बेबी कुमारी, दुर्गास्थान रोड, वार्ड नं0-14	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

7		XII दुमका/08 दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख)-14	सरिता देवी, कुलदीप सिंह रोड, दुमका, वार्ड नं0-14	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XII दुमका/08 दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख)-17	विनिता देवी, मेनरोड, दुमका (सरायरोड), वार्ड नं0-17	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।
